



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 1979/फाल्गुन 11, 1900
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 1979/PHALGUNA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1979

सा. का. नि. 206(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 63 (असा.) तारीख 3 फरवरी, 1978 द्वारा यथा-उपान्तरित सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 8) की धारा 146 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2. सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 में, नियम 53 में,—

(1) उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के किसी भाग या भागों तक, जलवायु, सम्बन्धी कारणों से या अन्यथा नहीं पहुँचा जा सकता है, तो पीठासीन अधिकारी, सबसे शीघ्र पहुँचने वाले उपलब्ध साधन द्वारा, र्टीनिंग आफिसर को गणना का परिणाम भेजेगा जिसमें चुनाव केंद्रों पर डाले गए मतों की संख्या, रद्द किए गए मतों की कुल संख्या और प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की कुल संख्या दर्शायी जाएगी।”

(2) उप-नियम (7) में, “परिणाम-पत्रों से” शब्दों के पश्चात् “उप-नियम (1) के परन्तुक के अधीन सूचना के रूप में भी”, शब्द जोड़े जाएंगे।

[सं. एस.-13013/5/78-एस आर]

भाल चन्द्र देशमुख, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 1979

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 63(E) dated the 3rd February, 1978, issued under sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Board Election (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959, in rule 53,—

(i) after sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely,—

“Provided that, where any part or parts of a constituency have become inaccessible due to climatic conditions or otherwise, the Presiding Officer shall, by the speediest means available, communicate to the Returning Officer, the result of the counting indicating the total number of votes polled at the polling stations, number of votes rejected and the number of valid votes secured by each candidate.”

(ii) in sub-rule (7), after the words “from the result sheets” the words “as also the information under the proviso to sub-rule (1)”, shall be added.

[No. S-13013/5/78-SR]

B. G. DESHMUKH, Addl. Secy.